

Joint Registrar (M)

May kindly see the letter dated 4.1.2010

Placed below at flag 'A' received from Sri Rajat Verma, Civil Judge (Jr. Div), Baghpat regarding incorporation of his name in the Property owned by his Mother.

Sri Verma in his letter has stated in Verbatim:

सश्रममान निवेदन है कि मेरी माँ श्रीमती आदर्श वर्मा तथा मेरे पिता स्व. श्री रवीन्द्र नाथ वर्मा, अपर जिला जज (रिटाईड) के नाम बदायूँ के ओरिजनल बिल आफ वॉमर्स आरख बदायूँ में एक प्लॉट था। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरी माँ ने उपरोक्त प्लॉट पर मेरा नाम श्री द्वितीय चारक के रूप में जुड़ा दिया है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त प्लॉट में मेरी माँ तथा मेरे पिता के नाम एक बचत खाता भी था, जिसमें मेरी मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात् मेरा नाम द्वितीय चारक के रूप में जोड़ा दिया है। उपरोक्त बचत खाते में लगभग अंकन दो लाख पच्चीस हजार रु. की चमराशि है। मेरी माँ ने अंकन पाँच लाख रु. की एक सियावी जमा रखी है (एन डिपॉजिट रिस्ट्रिक्ट संख्या - 0801645 खाता संख्या - 08243031009761) बनवारी है तथा उसमें भी मेरा नाम द्वितीय चारक के रूप में जुड़ा दिया है। उपरोक्त के अतिरिक्त मेरी माँ के नाम कुदा! दु! उ वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र मैन्डोर डूब है, अंकन बचतपत्रों को मेरी माँ ने जब पुनः रिन्वु कराया तो उसमें भी मेरा नाम वतौर द्वितीय चारक के रूप में जुड़ा दिया है। उपरोक्त राष्ट्रीय बचत-पत्र हेड पोस्ट ऑफिस, बदायूँ में दिनांक 29.12.2009 को अंकन अंकन है तथा उनका कुल चमराशि अंकन नब्बे हजार (रुपये) है इसके अतिरिक्त पोस्ट ऑफिस स्टेशन रोड बदायूँ शहर में भी कुछ राष्ट्रीय बचतपत्र मेरी माँ के नाम मैन्डोर डूब है, जिसको मेरी माँ ने पुनः रिन्वु कराकर उसमें भी मेरा नाम द्वितीय चारक के रूप में जुड़ा दिया है। उपरोक्त राष्ट्रीय बचतपत्र दिनांक 29.12.2009 को लिखे गये थे तथा उनकी कुल चमराशि अंकन एक लाख नब्बे हजार रु. है।

Request 76

He has submitted the information for kind Perusal and Placing on record. In this connection it is submitted that this appears to be a formal information as submitted by the officer, Property statement for the financial year 2009-10 & 2010-11 which should also includes these Property which will be due in the financial year 2011-12.

If approved, the file may be laid before Honble Mr. Justice Devendra Pratap Singh, Administrative Judge, Baghpat for kind Perusal and information?

REGISTRAR (B)

May like to lay the file before His Lordship as proposed at 'A' above?

Honble Mr. Justice Devendra Pratap Singh, Adm. Judge, Baghpat Submitted for kind perusal & further orders, if any. 04/2/10 (Dep-B)

B. Bahad J. R. (M) 03/2/2010

MA 1.2.10 01-2-10


Perused the record.
Approved. Let the statement
be included for the financial
year 2011-2012.



A.J. Baghat
17.1.2011

JR (M)

✓



Rejo. (B)

20-1-11

So Admin. A4

Pms

OK J.R. (M)

20-1-11

Asghar

CW

20-1-11